

# प्रभातफेरी से दिया स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता का संदेश

Sikar News - े स्वस्थ भारत यात्रा की प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भास्कर संवाददाता | सीकर देशभर से निकाली जा...

**Dainik Bhaskar**

Jan 07, 2019, 06:50 AM IST



े स्वस्थ भारत यात्रा की प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

भास्कर संवाददाता | सीकर

देशभर से निकाली जा रही स्वस्थ भारत यात्रा के सीकर पहुंचने पर रविवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में प्रभात फेरी निकाल कर स्वास्थ्य व स्वच्छता जागरूकता का संदेश दिया गया। कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अजय चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर किया। समापन कार्यक्रम जाट बाजार में हुआ। वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डॉ जीएल राठी ने स्वस्थ रहने के गुर बताए। यात्रा प्रभारी मृत्युंजय आनंद ने स्वस्थ भारत यात्रा के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सीकर जिला व्यापार महासंघ के महामंत्री प्रदीप पारीक, कबीरा ग्रुप के एमडी डॉ मनोज मुरारका ने भी स्वच्छता की उपयोगिता पर प्रकाश डाला।

पिरामिड बनाकर दी स्वस्थ रहने का संदेश : आदर्श पब्लिक स्कूल में 400 से भी अधिक छात्रों ने स्वस्थ भारत यात्रा का पिरामिड बनाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। संस्थान निदेशक डॉ महावीर हुड्डा एवं सचिव डॉ मंजू हुड्डा ने स्वच्छ रहने का संदेश दिया। यात्रा का रोटरी क्लब, सीकर की ओर से स्वागत किया गया। क्लब के अध्यक्ष जगदीश कुमावत ने बताया कि क्लब के द्वारा अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई।

अखिल भारती सै. स्कूल में संरक्षक निजामुद्दीन सोलंकी की उपस्थिति में बैठक हुई। अध्यक्ष मो. शरीफ (शिफा), इश्तियाक आलम पठान, सजाउद्दीन तंवर, एडवोकेट फिरोज़ मुगल, इरफान कारीगर, इस्लाम

पठान, अ. रशीद भाटी, मो. रुस्तम गोरी, जी.एम.मुगल, आदिल मुगल, रहीश खान, मो.रफ़ीक़, डॉ नवेद भाटी, मो.जावेद चौहान, मो. रफ़ीक़ बहलिम, सैफ अली गोरी, सहित अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने संबोधन किया।